

इसे वेबसाइट [www.govtppressmp.nic.in](http://www.govtppressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 19, शक 1932

---

### भाग २

#### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

---

कुछ नहीं

1849